

प्रलिमिंस फैक्ट्स : 08 जून, 2021

- [ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ](#)

ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ 37th Anniversary of Operation Blue Star

हाल ही में देश द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

प्रमुख बटु

ऑपरेशन ब्लू स्टार:

- यह 5 जून, 1984 को अमृतसर में [स्वर्ण मंदिर](#) के अंदर छपि अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिये भारतीय सैन्य अभियान को दिया गया एक कोड नाम है।
- ऑपरेशन का आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुख्य रूप से अमृतसर में हरमंदिर साहबि परसिर (जसि स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है) पर नियंत्रण करने के लिये दिया था।
- सखि चरमपंथी धार्मिक नेता, जरनैल सहि भडिरावाले (Jarnail Singh Bhindranwale) और उनके सशस्त्र अनुयायियों को इस परसिर में बाहर निकालने के लिये भारतीय सेना ने मंदिर परसिर में प्रवेश किया।
- ऑपरेशन के दो घटक थे:
 - ऑपरेशन मेटल (Operation Metal) जो कर्मंदिर परसिर पर आक्रमण था।
 - ऑपरेशन शॉप (Operation Shop) जो राज्य के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमति था।
- इस ऑपरेशन ने खालसितानी आतंकवाद को खत्म करने में मदद की।
 - इसके परिणामस्वरूप भडिरावाले की मृत्यु हो गई।
 - ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद इंदिरा गांधी की उनके सखि अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जसिके बाद दल्लि में गंभीर सखि वरिधी दंगे हुए थे।

पृष्ठभूमि:

- जरनैल सहि भडिरावाले चाहते थे कि भारत सरकार आनंदपुर प्रस्ताव पारति करे और इस तरह सखियों के लिये एक अलग खालसितान राज्य के गठन के लिये सहमत हो।
- वर्ष 1982 के बाद से सखि धर्म के इस कट्टरपंथी नेता ने अपने कार्य के लिये पर्याप्त समर्थन हासलि करने में कामयाबी हासलि की और वर्ष 1983 के मध्य तक गोला-बारूद तथा अपने अनुयायियों के साथ स्वर्ण मंदिर परसिर के अंदर एक आधार स्थापति कर लिया था।
- इसलिये भडिरावाले और उनकी मांगों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से 1 जून और 6 जून, 1984 के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- यह एक आतंकवाद-रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से वर्ष 1986 में संसद के एक अधिनियम '[राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड](#) अधिनियम, 1986' द्वारा अस्तित्व में आई।
 - इसका मुख्यालय मानेसर, गुरुग्राम में स्थिति है।
- आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिये आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने को ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर हमले और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस तरह के बल को बनाने का वचिार आया।

